



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122023-250601
CG-DL-E-12122023-250601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5083]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945

No. 5083]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5312(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट व्यौरे रेखांक धारक संख्या एनएमडीसी/कोल/रोहणे/सीबीए/4(1)/2, तारीख 25 अगस्त, 2023 का निरीक्षण, एनएमडीसी लिमिटेड, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद-500 028 के कार्यालय में या एनएमडीसी लिमिटेड, कोयला प्रभाग, दूसरी मंजिल, जेएसएफसी भवन, कदरू, रांची- 834 002, झारखंड के कार्यालय में या उपायुक्त, जिला हजारीबाग, झारखंड के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना पॅलेस, कांके रोड, रांची (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092 के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित उस भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई या होने वाली संभावित किसी नुकसानी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, कार्यकारी निदेशक (कोयला), एनएमडीसी लिमिटेड, कोयला प्रभाग, दूसरी मंजिल, जेएसएफसी भवन, कदरू, रांची- 834 002, झारखंड को परिदत्त कर सकेगा।

अनुसूची

कोयला खनन ब्लॉक का नाम – रोहणे कोयला ब्लॉक

जिला – हजारीबाग, राज्य झारखंड

[रेखांक धारक संख्या एनएमडीसी/कोल/रोहणे/सीबीए/4(1)/2, तारीख 25 अगस्त, 2023]

क्र.सं.	ग्राम का नाम	राजस्व थाना सं.	तहसील/सर्किल	जिला	अधिग्रहण के अधीन क्षेत्र		टिप्पणी
					हेक्टेयर में	एकड़ में	
1.	कोयलांग	102	बड़कागांव	हजारीबाग	10.09	24.93	भाग
2.	तालस्वर	105	बड़कागांव	हजारीबाग	22.39	55.33	भाग
3.	मलडीह	106	बड़कागांव	हजारीबाग	559.30	1382.06	भाग
4.	नपोखुर्द	107	बड़कागांव	हजारीबाग	108.78	268.80	भाग
5.	बरवनिया	108	बड़कागांव	हजारीबाग	328.73	812.31	भाग
6.	लुरूंगा	150	बड़कागांव	हजारीबाग	02.76	06.82	भाग
7.	चाणो	151	बड़कागांव	हजारीबाग	58.60	144.80	भाग
8.	पसेरिया	152	बड़कागांव	हजारीबाग	154.35	381.41	भाग
कुल :					1245.00	3076.46	

सीमा वर्णन :

सीमा रेखा	सीमा वर्णन
आर1-आर2-आर3-आर4-आर5-आर6-आर7-आर8-आर9-आर10-आर11-आर12-आर13-आर14-आर15-आर16-आर17-आर18-आर19-आर20-आर21-आर22-आर23-आर24-आर1.	रेखा 'आर1' से प्रारंभ होती है और आर2, आर3, आर4, आर5, आर6, आर7, आर8, आर9, आर10, आर11, आर12, आर13, आर14, आर15, आर16, आर17, आर18, आर19, आर20, आर21, आर22, आर23, आर24 बिन्दुओं से गुजरती हुई प्रारंभिक बिन्दु 'आर1' पर मिलती है।

[सं. 43015/16/2022-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2023

S.O. 5312(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number NMDC/Coal/Rohne/CBA/ 4(1)/2, dated the 25th August, 2023 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the NMDC Ltd. , 10-3-311/A, Castle hills , Masab Tank , Hyderabad-500028 or at the office of the NMDC Ltd. , Coal Division , 2nd floor ,JSFC Bhawan, Kadru, Ranchi -834002, Jharkhand or at the Office of Deputy Commissioner, District Hazaribagh, Jharkhand or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning

and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Scope Minar, 5th floor, Core-II, Laxmi Nagar, Delhi-110 092 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule.

Any person interested in the land described in the said Schedule may –

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the Executive Director (Coal), NMDC Limited, Coal Division , 2nd Floor, JSFC Bhavan, Kadru, Ranchi-834002, Jharkhand within a period of ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Name of the Coal Mining Block - Rohne Coal Block

District - Hazaribagh, State Jharkhand

[Plan bearing number NMDC/Coal/Rohne/CBA/ 4(1)/2, dated the 25th August, 2023]

Sr.No.	Name of Village	Revenue Thana number	Tehsil / Circle	District	Area under acquisition		Remarks
					In Ha.	In Acre	
1.	Koelang	102	Barkagaon	Hazaribagh	10.09	24.93	Part
2.	Talaswar	105	Barkagaon	Hazaribagh	22.39	55.33	Part
3.	Maldih	106	Barkagaon	Hazaribagh	559.30	1382.06	Part
4.	Napokhurd	107	Barkagaon	Hazaribagh	108.78	268.80	Part
5.	Barwania	108	Barkagaon	Hazaribagh	328.73	812.31	Part
6.	Lurunga	150	Barkagaon	Hazaribagh	02.76	06.82	Part
7.	Chano	151	Barkagaon	Hazaribagh	58.60	144.80	Part
8.	Paseriya	152	Barkagaon	Hazaribagh	154.35	381.41	Part
Total :					1245.00	3076.46	

Boundary description:

Boundary Line	Boundary Description
R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14-R15-R16-R17-R18-R19-R20-R21-R22-R23- R24-R1.	Line starts from point 'R1' and passes through points R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 and meets at starting point 'R1'.

[No. 43015/16/2022-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.